



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ३९ पटना, बुधवार, २४ अश्विन १९३६ (श०)
२४ सितम्बर २०१४ (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-१—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	२-३
भाग-१-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-१-ख—मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-१ और २, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डी०ए०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-१-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-२—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-३—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-४—बिहार अधिनियम	---
भाग-५—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-७—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-८—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-९—विज्ञापन	---
भाग-९-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-९-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	४-४
पूरक	---
पूरक-क	---

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

वित्त विभाग

अधिसूचना

18 सितम्बर 2014

सं० 1/स्था०(पदा०)-05/10(पार्ट) 8712/वि०—लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स एण्ड पोलिटिकल साइंस, लंदन (यू०के०) में इन्टरनेशनल ग्रोथ सेंटर द्वारा आयोजित “ग्रोथ वीक” सम्मेलन(22-25 सितम्बर, 2014) में भाग लेने के निमित्त प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि में श्री राजित पुनहानी, सचिव(व्यय), वित्त विभाग बिहार पटना के प्रभार में रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
शशि भूषण पाठक, संयुक्त सचिव।

निगरानी विभाग

अधिसूचना

18 सितम्बर 2014

सं० नि०वि०स्था०-4412/88 (अंश) 4827 (अनु०)—पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 7550 (एस०) दिनांक 08.08.2014 द्वारा श्री देव नारायण प्रसाद, नव प्रोन्नत, अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव की सेवा अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव के पद पर पदस्थापन हेतु निगरानी विभाग को सेवा सौंपी गयी है। तदनुसार दिनांक 11.08.2014 को श्री प्रसाद द्वारा योगदान समर्पित किया गया है।

2. उक्त के आलोक में उनके योगदान की तिथि 11.08.2014 के पूर्वान्न से योगदान स्वीकृत करते हुए निगरानी विभाग के अधीन तकनीकी परीक्षक कोषांग, पटना में अभियंता प्रमुख के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

3. इसमें मुख्य (निगरानी) मंत्री का आदेश प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
चन्द्रशेखर नारायण, उप—सचिव।

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग

अधिसूचनाएं

18 जुलाई 2014

सं० कारा/प्रो० (स्था०)-10-06/13-207—बिहार प्रोबेशन सेवा के निम्नांकित प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी एवं प्रोबेशन पदाधिकारियों का स्थानान्तरण करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित जिला प्रोबेशन कार्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी / प्रोबेशन पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4	5
1	श्री मंकेश्वर नाथ मिश्रा, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी	मोतिहारी	बिहारशरीफ	सिवान
2	श्री जय प्रकाश दास, प्रोबेशन पदाधिकारी	मधुबनी	सुपौल	पटना, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय (मुख्यालय) में प्रतिनियुक्त।
3	श्रीमती सुमित्रा रजक, प्रोबेशन पदाधिकारी	औरंगाबाद	बेगुसराय	नवादा

2. संबंधित प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी/प्रोबेशन पदाधिकारी का स्थानान्तरण उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आलोक में किया जा रहा है, अतः स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

3. संबंधित प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी एवं प्रोबेशन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि तुरन्त के प्रभाव से नव पदस्थापित स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, अपर सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

18 जुलाई 2014

सं० डी०पी०एस०-2-0-11/2012-208—श्री ओम प्रकाश गुप्ता, उप महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक निदेशक, प्रोबेशन चर्या के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. श्री गुप्ता, निदेशक, प्रोबेशन चर्या के रूप में प्रोबेशन प्रभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के साथ-साथ “अपराध पीड़ित कल्याण न्यास” के सदस्य सचिव तथा राज्य दण्डादेश परिहार परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्य करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, अपर सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

योजना एवं विकास विभाग

अधिसूचना

12 सितम्बर 2014

सं० यो०स्था०४/2-8/2014-4175/यो०वि०—पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 5391(S) दिनांक 08.07.2013 द्वारा सेवा प्राप्त श्री राम भरत प्रसाद, कार्यपालक अभियंता सम्प्रति स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल-2, मुजफ्फरपुर की सेवा प्रशासनिक कारणों से इनके मूल विभाग पथ निर्माण विभाग को वापस की जाती है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार, सचिव।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 27—571+50-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>**

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं
और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं० 1552— मैं फणिन्द्र कुमार यादव, पिता-श्री राजीव लोचन यादव, 44-रामकृष्ण पथ पो०- पाटलीपुत्र जिला-पटना-13 का निवासी हूँ। मेरा शपथ पत्र संख्या-12392 दिनांक 21.08.2014 के अनुसार मेरा पुत्र अभिनव अब अभिनव यादव के नाम से जाना जाएगा।

फणिन्द्र कुमार यादव।

No. 1552—I, Phanindra Kumar Yadav S/O Rajiv Lochan Yadav R/O 44, Ram Krishna Path, PO-Patliputra Patna -13 declare that my son Abhinav will be known as Abhinav Yadav vide Afdvt. No. 12392 dated 21.08.2014

PHANINDRA KUMAR YADAV.

No. 1475—I, Sankalp s/o Randhir Kumar Singh, R/o Flat no. 203 Prema Residency, Road No. 04, Mahesh nagar Patna-24 declare vide affidavit No. 7598 dated 26-05-2014 that from now onwards I shall be known as Sankalp Singh Rathore.

SANKALP.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 27—571+20-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>